



## प्रेस नोट

### जनपद सीतापुर

## सीतापुर में भटकी मिली दो बालिकाओं को सकुशल किया परिजनों के सुपुर्द

दिनांक – 04.09.21

पुलिस अधीक्षक सीतापुर द्वारा मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत जनपद सीतापुर में महिलाओं की सुरक्षा/यथासंभव सहायता एवम् जागरूकता हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये है।

उक्त निर्देशों के अनुपालन के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा भटकी हुई दो बालिकाओं को उनके परिजनो के सुपुर्द किया गया। आज दिनांक 04.09.21 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा गश्त के दौरान पुराना शहर सीतापुर में सुबह करीब पांच बजे दो बालिकायें परेशान व भटकती हुई मिली। दोनो बालिकाओं से महिला आरक्षी द्वारा जानकारी की गयी तो उनके द्वारा अपना नाम 1.काजरून पुत्री मुसीबत उम्र 14 वर्ष नि० करीन गांव थाना रुपईडिहा जनपद बहराइच व 2.मनीषा पुत्री वकील नि० उपरोक्त उम्र 12 वर्ष बताया गया । जो जनपद बहराइच स्थित दरगाह शरीफ को जाते समय भटक कर सीतापुर आ गयी थी। जिन्हें कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा तत्परतापूर्वक ड्यूटी करते हुए अपने साथ सुरक्षित थाने पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए लाया गया। दोनो बालिकाओं से उनके परिवार के विषय में जानकारी का प्रयास किया गया तथा मिली जानकारी के आधार पर उनके परिजनों का पता लगा कर उनसे संपर्क स्थापित किया गया। परिजनों के सीतापुर आने पर तस्दीक उपरांत सकुशल उनके सुपुर्द किया गया।

### पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री दिनेश तिवारी
2. हे०का० शिव बहादुर सरोज
3. का० राजू सरोज
4. म० आ० प्रीती सिंह

